

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 174]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 3, 1966/चैत्र 12, 1888

No. 174]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 3, 1966/BHADRA 12, 1888

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

Customs

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd September, 1966

G.S.R. 1376.- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts glass tubes used in the manufacture of fluorescent lamps, when imported into India, from the whole of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934).

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 31st March, 1967.

[No. 170/F.No.21/56/65-Cus.I.]

D. P. ANAND., Jt. Secy.